

सीबीआइ ने वसूली के आरोप में अपने ही अधिकारी के खिलाफ किया मामला दर्ज

नई दिल्ली, 8 नवंबर (भाषा)।

सीबीआइ ने गुजरात के एक कारोबारी से पांच करोड़ रुपए की कथित तौर पर वसूली करने

आरोप में अपने ही एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अधिकारी ने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की कार्रवाई की धमकी देकर

कारोबारी से यह वसूली की। उन्होंने बताया कि आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद एजेंसी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की।

अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि

गांधीनगर में उस वक्त बतौर इन्स्पेक्टर तैनात सुनील नायर ने कारोबारी शैलेश भट्ट से धन वसूली के लिए पिछले साल फरवरी में फिरोट मधुभाई पलाडिया के साथ मिल कर अपराधिक

साजिश रची। एजेंसी ने आरोप लगाया कि नायर ने पांच फरवरी, 2018 को भट्ट को सीबीआइ के गांधीनगर कार्यालय में बुलाया और बिटकॉइन के जरिए कालाधन कमाने के लिए ईडी और

आयकर विभाग की कार्रवाई की कथित धमकी दी। अधिकारियों ने बताया कि नायर ने कथित काले धन के मुद्दे पर चुपगी साधे रखने के लिए कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए मांगे थे।

बैंक ऑफ बड़ोदा
(अगर सरकारी बैंक उपलब्ध है)

एफ-22/35-36, राहणा सक्टर-3 राहणा रोहिणी, दिल्ली-110085
फोन: 011-27519721, ईमेल: Rohini@denbank.co.in

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति/निवेशों) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ोदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना लिखित 21.8.2019 जारी कर ऋणधारक श्री तेजिन्दर सिंह विवेक तथा सुश्री रुचि कौर विवेक, निवासी: मकान सं. 77, ऊपरी भू तल, सेक्टर-20, पॉकट 13, रोहिणी, दिल्ली-110085 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.10.2019 को रु. 35,87,383.00 (रुपये पैंतीस लाख सतासी हजार तीन सौ तिरासी मात्र) तथा आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेंज तथा खर्चें वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 2 नवम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कच्चा कर लिया है।

विषय रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.10.2019 को रु. 35,87,383.00 (रुपये पैंतीस लाख सतासी हजार तीन सौ तिरासी मात्र) तथा आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेंज तथा खर्चें के लिये बैंक ऑफ बड़ोदा (ई देना बैंक) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री तेजिन्दर सिंह विवेक तथा श्रीमती सावित्री कौर विवेक के नाम में प्लॉट 13, सक्टर-20, राहणा, दिल्ली-110085 में सम्पत्ति निर्मित सम्पूर्ण ऊपरी तल, प्लॉट नं. 77, क्षेत्रफल मांग 48 वर्ग मी. जिसका पंजीकरण सं. 864, बुक नं. 1, चॉल. नं. 36 में, पेज 27 से 36 तिथि 31.12.2012, उप-जिला, नई दिल्ली तथा जिला नई दिल्ली में, का सभी भाग तथा हिस्सा। चौकड़: उत्तर- रोड 18एम, दक्षिण: सर्विस लेन, पूर्व: मकान सं. 78, पश्चिम: रोड 11 एम

तिथि: 7.11.2019 (बी एल मायूर) प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली मुख् प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ोदा (ई देना बैंक)

बिक्री उद्घोषणा

कार्यालय: रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनताग भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 452/2018 तिथि: 27.09.2019

पाण्डवा बनाम चा. भाम सिंह इस्टाट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों को वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

सेवा में सीडी नं. 1. चौ. भीम सिंह इस्टाट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
साथ ही: ग्राम चन्द्रपुरी विदेन (फतेहपुरी) तहसील एवं जिला झज्जर, हरियाणा
साथ ही: बी-37, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052
साथ ही: बी-8, गुजरावाल टाउन, पार्ट-1, मॉडल टाउन भेट्टी स्टेशन के निकट, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009
सीडी नं. 2 श्री हंसाराम धनकर (गारुडर), पुत्र स्व. श्री भीम सिंह (अग्र्य एवं प्रबंधन ट्रस्टी), चौ. भीम सिंह इस्टाट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

साथ ही: बी-37, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052
साथ ही: 3 सुश्री कान्हा चौधरी (गारुडर), पुत्री श्री हंसाराम धनकर (संयुक्त सचिव) चौ. भीम सिंह इस्टाट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

साथ ही: बी-37, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052
साथ ही: 4 श्री अशोक सिंह, पुत्र स्व. श्री भीम सिंह (उपग्र्य एवं प्रबंधन ट्रस्टी) चौ. भीम सिंह इस्टाट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

साथ ही: बी-37, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052
साथ ही: 5 श्री धरम सिंह, पुत्र श्री चंचोगी राम (महा सचिव) चौ. भीम सिंह इस्टाट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

साथ ही: आईएफसीआई अग्रमेन्ट फ्लैट नं. 4003, सेक्टर-23, द्वारका दिल्ली-110075
साथ ही: 6 श्री विवेक सिंह चौधरी (गारुडर), पुत्र श्री हंसाराम धनकर (संयुक्त सचिव) चौ. भीम सिंह इस्टाट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

साथ ही: बी-37, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052
साथ ही: 7 सुश्री कृष्णा चौधरी, पत्नी श्री अशोक सिंह (कोषाध्यक्ष) चौ. भीम सिंह इस्टाट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

साथ ही: बी-37, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052
साथ ही: 8 श्री विकास धनकर, पुत्र श्री हंसाराम धनकर (सदस्य ट्रस्टी) चौ. भीम सिंह इस्टाट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

साथ ही: बी-37, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052
जैसा कि आप पीठोत्तरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जो.ए.ए.नं. 477/2016/डीआरटी-III, दिल्ली में रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा देय 14.6.2016 से 11% प्रति वर्ष की साधारण दर पर ब्याज, लागत, खर्च के साथ रु. 15,98,75,204/- (रुपए पन्ध्र करोड़ अठारह लाख पचहत्तर हजार दो सौ चार मात्र) तथा कथित निर्माणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागतों का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

तथा बैंक कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र को संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि स्वयं आदेश की अनुपस्थिति में 19.12.2019 को 3.00 बजे अर. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वयं विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "अंतिम लाइव इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से, ई-प्रॉक्सीमेंट टेक्नोलॉजी लि. (एबीसी प्रॉक्सी), ए-201/2028, चाल स्ट्रीट-II, ऑरिएण्ट क्लब के सामने, गुजरात हाइवे के निकट, एरिस रिज, अहमदाबाद 3800006 गुजरात (भारत) टेली: +91-079-40016800, फैक्स: +917940016876 सम्पर्क व्यक्ति श्री मितेश जी, मो. नं. 07982880393, ईमेल: delhi@eactiontigger.net के माध्यम से वेबसाइट www.drt.actiontigger.net पर निष्पत्ति होगी। किसी भी प्रकार की पुछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलोदाता डीआरटी-III, दिल्ली के रिक्वारी सेल में सम्पर्क कर सकते हैं।

यह बिक्री नीचे तालिका में वर्णित उपरोक्त प्रतिवादियों को संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, ये प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उन्को संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी अर्थवादी की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेचे जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निष्पत्तियों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वप्रथम जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामि के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. आरंभित बोलव निरसरे काम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आंशक मूल्य/अंशमूली
1.	ग्राम चन्द्रपुरी (फतेहपुरी) जिला झज्जर, हरियाणा में प्रसिद्धता नं. 1 ट्रस्ट के नाम में खेत नं. 2, काहत नं. 2 में भूमि एवं पत्त (निर्मित/निर्मित होने वाली) जो खसरा नं. 13/24(7-8), 25(8-0), 14/21(8-0)22(8-0), 18/4(7-8), 5(8-0), 6(8-0), 7(7-8), 14(7-9), 15(8-0), 78 खसरा 3 मर्रा, माप 10 एकड़ जो भूमि माप 192 कनाल 16 मर्रा (80 कनाल) के 1600/3856 शेयर का भाग है, में स्थित है, का ईंप, अधिग्रहित तथा अधिग्रहित की जाने वाली सभी प्लॉट एवं मनीसरीज, उपकरण, फर्नीचर एवं सज्जे आमतान तथा अन्य निष्पत्ति परिसम्पत्तियों सहित ब्लॉक की सम्पूर्ण चल परिसम्पत्तियों (वर्तमान एवं भविष्य के) का हाइपोथेकेस।	रु. 19,95,50,000/- ईंमूली: रु. 1,99,55,000/-

2. यह राशि जिसके द्वारा बोली बहाई जायेगी रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।

3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट के क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अर्थात् होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।

4. ईंपटीडी का भुगतान 17.12.2019 तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय होडी/पे आर्डर द्वारा रिक्वारी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली की पास मुहरबंद लिफाफे में किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईंमूली पर ई-नीलामी में भागीदारी में भागीदारी के लिये विचार नहीं किया जाएगा।

5. बोली आवेदन के साथ धन काई की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रमाण की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उरका प्राधिकार जमा करना होगा अथवा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अदानी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/कांटेनर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसको हाई कॉपी, रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।

6. सरगल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अथ, तक उक्त खाता में ईंपटीडी समायोजित करने के बाद ऊपर वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।

7. समस्त उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 3 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त में अंतिमपत्र क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के 1% की दर से रजिस्टार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज सुलूक का भी भुगतान करना होगा।

8. अरफतल बोलीदाता को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने ईंपटीडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की निष्पत्ति तिथि या उससे पूर्व डीआरटी-III, के विसर्जनों में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दखिल करें जो वन्दपुरा आरसी की सुनवाई की निष्पत्ति/परवर्ती तिथि की यास लौटाई जायेगी।

9. निष्पत्ति अर्थात् के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। बिक्री के खर्च को डेफे कराने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकारी के पक्ष में जमा कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जायेगी के प्रति अपना सभी दावे से संचित हो जायेंगे।

10. सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि यदि दिव्य गये विवरणों की सत्यता की जांच एवं सत्यापन करें।

11. संपत्ति को बिक्री "जैसा है जहाँ है तथा जो भी यहाँ है" आधार पर जो ली रही है।

लॉट नं.	सह-ऋणधारकों जहाँ सम्पत्ति चुककर्ता का है तथा सह-व्यवसी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम के साथ बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी भाग पर उरका की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण
1	1. ग्राम चन्द्रपुरी (फतेहपुरी) जिला झज्जर, हरियाणा में प्रसिद्धता नं. 1 ट्रस्ट के नाम में खेत नं. 2, काहत नं. 2 में भूमि एवं पत्त (निर्मित/निर्मित होने वाली) जो खसरा नं. 13/24(7-8), 25(8-0), 14/21(8-0)22(8-0), 18/4(7-8), 5(8-0), 6(8-0), 7(7-8), 14(7-9), 15(8-0), 78 कनाल 3 मर्रा, माप 10 एकड़ जो भूमि माप 192 कनाल 16 मर्रा (80 कनाल) के 1600/3856 शेयर का भाग है, में स्थित है, का ईंप, अधिग्रहित तथा अधिग्रहित की जाने वाली सभी प्लॉट एवं मनीसरीज, उपकरण, फर्नीचर एवं सज्जे आमतान तथा अन्य निष्पत्ति परिसम्पत्तियों सहित ब्लॉक की सम्पूर्ण चल परिसम्पत्तियों (वर्तमान एवं भविष्य के) का हाइपोथेकेस।	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर 27 नवम्बर, 2019 को दी गई।

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार) में

कम्पनी के पंजीकृत बालेंस की एक तथ्य से तुरी राश्य में परिचय के लिए सम्बन्धित रूप में निम्नान्त प्रकटीत किया जाता है केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निरेक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली बी-2

बिप, हुसरा तल, पब्लिक भवन, सीबीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष तथा संश्लिष्ट कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मासने

और करंट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ("सह कम्पनी")

जिनका पंजीकृत बालेंस: 306 मुनीश प्लाजा, 20 अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 में है, के मामले में

...आवेकए एतद्वारा जनसम्पत्त को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाते हेतु पुष्टिकरण से लिए केंद्र सरकार (उत्तरी क्षेत्रीय निरेक) को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, का निम्न प्रकार है: आवेदन उक्त क्षेत्र में कम्पनी को संचय करने हेतु 30 तिमाह (2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत बालेंस को "राष्ट्रीय उपग्रही क्षेत्र दिल्ली" से "एववस्तव राज्य" में बदलने हेतु पेश किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत बालेंस के अंशधारक परिवर्तन में शामिल हो तो वह व्यक्ति को जो निरेक निगमन प्रत्येक क्वॉल कर एक्टिव-21 वॉलेंट (www.mca.gov.in) में निगमन दर्ज करे अथवा एक अन्य एक निगम उक्त हित / निगम के अन्वय में, ब्याज देने हेतु, क्षेत्रीय निरेक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मन्त्रालय, बी-2 बिप, हुसरा तल, पब्लिक भवन, सीबीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इससे एक कॉपी आवेक कम्पनी को इसके पंजीकृत बालेंस 306 मुनीश प्लाजा, 20 अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजें।

कृते करंट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
हरना./ श्री लाल मोहनदा (निरेक)

दिनांक: 08 नवंबर 2019
स्थान: नई दिल्ली सीआईएन: 07719469

This is an advertisement issued, pursuant to Regulation 8(1) of the SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 as amended, for information purposes only.



KOSAMATTAM FINANCE LIMITED

(CREDIT RATING : 'IND BBB' Outlook Stable, by India Ratings & Research Private Limited ("India Ratings"))

Our Company was incorporated on March 25, 1987, as "Standard Shares and Loans Private Limited", a private limited company under the Companies Act, 1956 with a certificate of incorporation issued by Registrar of Companies, Kerala and Lakshadweep, at Kochi, ("RoC"). The name of our Company was changed to "Kosamattam Finance Private Limited" pursuant to a resolution passed by the shareholders of our Company at the EGM held on June 2, 2004 and a fresh certificate of incorporation dated June 8, 2004 issued by the RoC. Subsequently, upon conversion to a public limited company pursuant to a special resolution of the shareholders of our Company dated November 11, 2013, the name of our Company was changed to "Kosamattam Finance Limited" and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on November 22, 2013. Our Company has obtained a certificate of registration dated December 19, 2013 bearing registration no. B-16.00117 issued by the Reserve Bank of India ("RBI") to carry on the activities of a non-banking financial company without accepting public deposits under Section 45 IA of the RBI Act, 1934. For details of changes in our name and registered office, see "History and Certain Other Corporate Matters" on page 91 of the Prospectus.

Registered and Corporate Office: Kosamattam Mathew K. Cherian Building, M. L. Road, Market Junction, Kottayam - 686 001, Kerala, India
Corporate Identity Number: U65929KL1987PLC004729; Tel: +91 481 258 6400; Fax: +91 481 258 6500; Website: www.kosamattam.com
Company Secretary and Compliance Officer: Sreenath P. Tel: +91 481 258 6506; Fax: +91 481 258 6500; E-mail: cs@kosamattam.com

PUBLIC ISSUE BY KOSAMATTAM FINANCE LIMITED, ("COMPANY" OR "ISSUER") OF SECURED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹1,000 EACH ("NCDs"), AT PAR, AGGREGATING UP TO ₹17,500 LAKHS, HERINAFTER REFERRED TO AS THE "BASE ISSUE" WITH AN OPTION TO RETAIN OVER-SUBSCRIPTION UP TO ₹17,500 LAKHS, AGGREGATING UP TO ₹35,000 LAKHS, HERINAFTER REFERRED TO AS THE "OVERALL ISSUE SIZE" (THE "ISSUE"). THE ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008, AS AMENDED ("SEBI DEBT REGULATIONS"), THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER AS AMENDED TO THE EXTENT NOTIFIED.

The following is a summary of the terms of the NCDs to be issued pursuant to the Prospectus dated November 5, 2019 ("Prospectus")

Tenure	18 months	24 months	36 months	48 months	66 months	84 months
Nature	Secured					
Options	I	II	III	IV	VI	VII
Frequency of Interest Payment	Cumulative	Monthly	Monthly	Cumulative	Cumulative	Cumulative
Minimum Application	10 NCDs (₹10,000) (across all options of NCDs)					
In Multiples of	1 NCD after the minimum application					
Face Value of NCDs (₹/NCD)	₹1,000					
Issue Price (₹/NCD)	₹1,000					
Mode of Interest Payment/Redemption	Through Various options available					
Coupon (%) per annum in Category I, II and III	NA	9.75	10.00	NA	NA	10.25
Coupon Type	Fixed					
Redemption Amount (₹/NCD) for NCD Holders in Category I, II and III	1,142.00	1,000.00	1,000.00	1,350.00	1,500.00	2,000.00
Effective Yield % (per annum) – Category I, II and III	9.26	10.20	10.47	10.52	10.67	10.75
Put and Call Option	Not Applicable					
Deemed Date of Allotment	The date on which the Board or a duly authorised committee approves the Allotment of NCDs. All benefits relating to the NCDs including interest on the NCDs shall be available to the investors from the Deemed Date of Allotment. The actual Allotment of NCDs may take place on a date other than the Deemed Date of Allotment.					

For details of category wise eligibility and allotment in the Issue please see "Issue Procedure – Who can apply", "Issue Procedure – Method of application" and "Issue Procedure – Basis of allotment", on pages 157, 159 and 173 of the Prospectus, respectively.

Our Company would allot **Option NCDs** to all valid applications, wherein the applicants have not indicated their choice of the relevant options of the NCDs.

Please note that the company would be using the Book Building software of BSE for the Issue.

ISSUE OPENS ON MONDAY, NOVEMBER 11, 2019

ISSUE CLOSSES ON TUESDAY, DECEMBER 10, 2019**

** Issue shall remain open for subscription on Working Days from 10 a.m. to 5 p.m. (Indian Standard Time) during the period indicated above, except that the Issue may close on such earlier date as may be decided by the Board of Directors of our Company or Committee thereof subject to receipt of necessary approvals. In the event of such early closure of the Issue, our Company shall ensure that notice of such early closure is given on or before such early date of closure or the initial Closing Date through advertisement/s in a leading national daily newspaper. For further details, see "General Information – Issue Programme" on page 44 of the Prospectus.

Information required under Section 30 of Companies Act, 2013:

Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects of our Company, see "History and Certain Other Corporate Matters" on page 91 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of the Company is a document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 270 of the Prospectus.

Liability of Members: Limited

Amount of share capital of the company as at the date of the Prospectus: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 5,50,00,00,000 divided into 50,00,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each and 5,00,00,00,000 Preference Shares of face value of ₹ 1,000 each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company is ₹ 2,03,60,17,700 divided into 19,16,17,770 Equity Shares of face value of ₹ 10 each and 1,20,00,00,000 Preference Shares of face value of ₹ 1,000 each.

NILE LIMITED An ISO 9001 Company
 CIN: L27029AP1984PLC004719
 Regd. Office: Plot No.38 & 40, APIIC Industrial Park, Gajulamandam (V), Renigunta (M), Tirupati, Chittoor Dist., A.P.- 517520
 Corp. Office: Plot No.24/A, MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034.
 Ph.040-23606641, Fax: 040-23606640 Email : legal@nilelimited.com; website: www.nilelimited.com

Statement of Unaudited Results for the Quarter Ended 30th September, 2019

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
Total Income from Operations (net)	17,714.64	11,908.79	13,655.99	29,623.43	28,952.42	57,083.46
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	478.64	(131.51)	663.54	347.13	1,102.82	1,933.87
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	478.64	(131.51)	663.54	347.13	1,102.82	1,933.87
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	448.47	(124.04)	415.79	324.43	707.55	1,251.04
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after Tax))	448.47	(124.04)	415.79	324.43	707.55	1,210.45
Equity Share Capital	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in Balance Sheet of previous year)	NA	NA	NA	NA	NA	12,841.77
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)	14.94	(4.13)	13.85	10.81	23.57	40.32
(a) Basic (in Rs.)	14.94	(4.13)	13.85	10.81	23.57	40.32

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the BSE Ltd. (Stock Exchange) website (www.bseindia.com), and Website of the Company (www.nilelimited.com).

For Nile Limited
 Sd/-
 V. Ramesh, CMD
 Place: Hyderabad
 Date : 8th November, 2019
 DIN: 00296642

J.L.MORISON (INDIA) LIMITED
 (CIN: L51109WB1934PLC088167)
 Regd. Office : 'Rasoi Court', 20 Sir R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001
 Ph : 033 22480114/15, Email id: investors@jlmorison.com, Website: www.jlmorison.com/corporate

Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2019

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Half Year ended
		30.09.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2019
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1	Total income from operations (net)	2,433.55	2,218.73	4,866.43	
2	Net Profit / (loss) for the period (before tax, Exceptional and /or Extra ordinary items)	166.94	250.86	406.90	
3	Net Profit / (loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extra ordinary items)	166.94	250.86	406.90	
4	Net Profit / (loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extra ordinary items)	147.42	190.95	307.73	
5	Total Comprehensive Income for the period [(comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	74.91	(755.37)	5.83	
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	136.50	136.50	136.50	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	
8	Earning per Equity share ((of Rs. 10/- each) (Basic & Diluted))	10.80	13.99	22.54	

Notes:
 1) The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2019 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.jlmorison.com/corporate).
 2) The above Un-Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 7th November, 2019.
 3) Based on the "management approach" as defined in Ind AS 108 - Operating Segments, the Company is primarily engaged in the business of personal care products which the management recognises as the sole business segment. Hence, disclosure of segment-wise information is not required and accordingly not provided.
 4) Previous periods figures have been regrouped / reclassified wherever necessary, to conform to the current period's classification.
 For and on behalf of the Board of Directors
 J. L. Morison (India) Limited
 Sd/-
 Sohan Sarma
 Executive Director & CEO
 Place: Mumbai
 Date: 7th November, 2019
 DIN: 00129782

Dr. Lal PathLabs Limited
 Corporate Identity Number: L74899DL1995PLC065388
 Regd. Office: Block - E, Sector - 18, Rohini, New Delhi - 110085
 Corporate Office: 15th Floor, Tower B, SAS Tower, Medcity, Sector-38, Gurugram - 122001, Haryana
 Tel.: +91 - 124 - 3016500; Fax: +91 - 124 - 4234468; Email: cs@lalpathlabs.com

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER, 2019

S. No.	Particulars	₹ in million except as stated		
		3 months ended 30 September, 2019	Half year ended 30 September, 2019	Corresponding 3 months ended 30 September, 2018
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	3,804	7,300	3,284
2	Net Profit for the period before Tax and Exceptional Items*	1,023	1,917	881
3	Net Profit for the period before Tax and after Exceptional Items*	1,023	1,917	881
4	Net Profit for the period after Tax and after Exceptional Items*	810	1,401	573
5	Total Comprehensive Income for the period after Tax*	816	1,411	574
6	Paid-up Equity Share Capital (face value of ₹ 10/- per share)	833	833	833
7	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (not annualised)	9.77	16.91	6.91
	(a) Basic (In ₹)	9.77	16.91	6.91
	(b) Diluted (In ₹)	9.75	16.86	6.90

* Before non-controlling interest
Notes:
 i. Key numbers of the Standalone Results are as under: (₹ in million except as stated)

Particulars	3 months ended 30 September, 2019	Half year ended 30 September, 2019	Corresponding 3 months ended 30 September, 2018
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total Income from Operations	3,674	7,060	3,179
Profit for the period before Tax	998	1,865	849
Profit for the period after Tax	795	1,368	552
Total Comprehensive Income	802	1,379	553

 ii. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 8 November, 2019.
 iii. The Board of Directors, which has been identified as being the chief operating decision maker (CODM), evaluates the Group's performance, allocates resources based on the analysis of the various performance indicators of the Group as a single unit. Therefore, there is no reportable segment for the Group, in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard 108 - 'Operating Segments', prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.
 iv. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results as per Ind AS filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Financial Results of the Quarter and half year ended is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.lalpathlabs.com).
 For and on behalf of the Board of Directors of
Dr. Lal PathLabs Limited
 (Hony) Brig. Dr. Arvind Lal
 Chairman and Managing Director
 Place: New Delhi
 Date: 8 November, 2019

Rajasthan State Mines & Minerals Limited
 (A Government of Rajasthan Enterprise)
 4, Meera Marg, Udaipur - 313001
 Phone: (0294)2428768/2428763-67, Fax: (0294)2428770,2428739
 Email: -contractco.rsmml@rajasthan.gov.in
Notice Inviting e-Tender Date-08.11.2019

Sl. No.	Date	Description of Work
e-Tender no. dated-30/2019-20	30.09.2019	Drilling, excavation and transportation of overburden/waste rock phosphate ore 39.00 lac BCM and its transportation from Western Pit (A and B Blocks) of Jhamarkotra Rock Phosphate Mines. Contract value Rs. 4332.00 Lac, EMD Rs. 86.64 Lac., Tender Fees Rs. 4720/-
UBN no.	MM11920WSOB00162	

Other terms & conditions have been given in detailed tender for which please visit us at our website www.rsmm.com or www.sppp.rajasthan.gov.in or eproc.rajasthan.gov.in or contact SM (Contract) on above address. Raj. Samwad/C3576/2019-2020 SM (Admin.)

PROVogue (INDIA) LIMITED
 Regd. Off: 105/106, Provogue House, 1st Floor, Off New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053
 CIN: L18101MH1997PLC111924, Website: www.provogue.com
 Ph: +91-22-6824 9000 | E-mail ID : investorservice@provogue.com

NOTICE OF BOARD MEETING
 NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 13th November 2019, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter ended 30th September 2019.
 This information shall be available on the website of the Company at www.provogue.com and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.
 For Provogue (India) Limited
 Sd/-
 CA Amit Gupta
 Liquidator
 702, Janki Centre, Dattaji Salvi Road, Off Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai - 400053
 Email: caamith.gupta@gmail.com
 clrp.provogue@gmail.com
 Date : 08.11.2019
 Place : Mumbai
 Registration No.: IBB/IIPA-001/IP-P00016/2016-17/10040

This is an advertisement issued, pursuant to Regulation 8(1) of the SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 as amended, for information purposes only.

KOSAMATTAM FINANCE LIMITED
 (CREDIT RATING : 'IND BBB' Outlook Stable, by India Ratings & Research Private Limited ("India Ratings"))

Our Company was incorporated on March 25, 1987, as 'Standard Shares and Loans Private Limited', a private limited company under the Companies Act, 1956 with a certificate of incorporation issued by Registrar of Companies, Kerala and Lakshadweep, at Kochi, ("RoC"). The name of our Company was changed to 'Kosamattam Finance Private Limited' pursuant to a resolution passed by the shareholders of our Company at the EGM held on June 2, 2004 and a fresh certificate of incorporation dated June 8, 2004 issued by the RoC. Subsequently, upon conversion to a public limited company pursuant to a special resolution of the shareholders of our Company dated November 11, 2013, the name of our Company was changed to 'Kosamattam Finance Limited' and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on November 22, 2013. Our Company has obtained a certificate of registration dated December 19, 2013 bearing registration no. B-16.00117 issued by the Reserve Bank of India ("RBI") to carry on the activities of a non-banking financial company without accepting public deposits under Section 45 IA of the RBI Act, 1934. For details of changes in our name and registered office, see "History and Certain Other Corporate Matters" on page 91 of the Prospectus.
 Registered and Corporate Office: Kosamattam Mathew K. Cherian Building, M. L. Road, Market Junction, Kottayam - 686 001, Kerala, India
 Corporate Identity Number: U65299KL1987PLC004729; Tel: +91 481 258 6400; Fax: +91 481 258 6500; Website: www.kosamattam.com
 Company Secretary and Compliance Officer: Sreenath P. Tel: +91 481 258 6506; Fax: +91 481 258 6500; E-mail: cs@kosamattam.com

PUBLIC ISSUE BY KOSAMATTAM FINANCE LIMITED, ("COMPANY" OR "ISSUER") OF SECURED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹1,000 EACH ("NCDs"), AT PAR, AGGREGATING UP TO ₹17,500 LAKHS, HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "BASE ISSUE" WITH AN OPTION TO RETAIN OVER-SUBSCRIPTION UP TO ₹17,500 LAKHS, AGGREGATING UP TO ₹35,000 LAKHS, HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "OVERALL ISSUE SIZE" (THE "ISSUE"). THE ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008, AS AMENDED ("SEBI DEBT REGULATIONS"), THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER AS AMENDED TO THE EXTENT NOTIFIED.

The following is a summary of the terms of the NCDs to be issued pursuant to the Prospectus dated November 5, 2019 ("Prospectus")

Tenure	18 months	24 months	36 months	48 months	66 months	84 months
Nature	Secured					
Options	I	II	III	IV	VI	VII
Frequency of Interest Payment	Cumulative	Monthly	Monthly	Cumulative	Cumulative	Cumulative
Minimum Application	10 NCDs (₹10,000) (across all options of NCDs)					
In Multiples of	1 NCD after the minimum application					
Face Value of NCDs (₹/NCD)	₹1,000					
Issue Price (₹/NCD)	₹1,000					
Mode of Interest Payment/Redemption	Through Various options available					
Coupon (%) per annum in Category I, II and III	NA	9.75	10.00	NA	NA	10.25
Coupon Type	Fixed					
Redemption Amount (₹/NCD) for NCD Holders in Category I, II and III	1,142.00	1,000.00	1,000.00	1,350.00	1,500.00	1,750.00
Effective Yield % (per annum) - Category I, II and III	9.26	10.20	10.47	10.52	10.67	10.71
Put and Call Option	Not Applicable					
Deemed Date of Allotment	The date on which the Board or a duly authorised committee approves the Allotment of NCDs. All benefits relating to the NCDs including interest on the NCDs shall be available to the investors from the Deemed Date of Allotment. The actual Allotment of NCDs may take place on a date other than the Deemed Date of Allotment.					

For details of category wise eligibility and allotment in the Issue please see "Issue Procedure - Who can apply", "Issue Procedure - Method of application" and "Issue Procedure - Basis of allotment", on pages 157, 159 and 173 of the Prospectus, respectively.
 Our Company would allot Option I NCDs to all valid applications, wherein the applicants have not indicated their choice of the relevant options of the NCDs.
 Please note that the company would be using the Book Building software of BSE for the Issue.

ISSUE OPENS ON MONDAY, NOVEMBER 11, 2019
ISSUE CLOSES ON TUESDAY, DECEMBER 10, 2019**

** Issue shall remain open for subscription on Working Days from 10 a.m. to 5 p.m. (Indian Standard Time) during the period indicated above, except that the Issue may close on such earlier date as may be decided by the Board of Directors of our Company or Committee thereof subject to receipt of necessary approvals. In the event of such early closure of the Issue, our Company shall ensure that notice of such early closure is given on or before such early date of closure on the official Closing Date through advertisement/s in a leading national daily newspaper. For further details, see "General Information - Issue Programme" on page 44 of the Prospectus.

Information required under Section 30 of Companies Act, 2013:
Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects of our Company, see "History and Certain Other Corporate Matters" on page 91 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of the Company is a document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 270 of the Prospectus.
Liability of Members: Limited
Amount of share capital of the company as at the date of the Prospectus: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 5,50,00,00,000 divided into 50,00,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each and 5,00,000 Preference Shares of face value of ₹ 1,000 each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company is ₹ 2,03,60,17,700 divided into 19,16,01,770 Equity Shares of face value of ₹ 10 each and 1,20,000 Preference Shares of face value of ₹ 1,000 each.
Names of the signatories at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company and the number of shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the Number of equity shares subscribed for of face value of ₹1,000 each by them at the time of signing of Memorandum of Association: K. P. Jose-1 equity share and K. P. Rajan-1 equity share.
PROMOTERS OF THE COMPANY: Mathew K. Cherian, Laila Mathew and Jilu Sajju Varghese. For further details, see "Our Promoters" on page 107 of the Prospectus.
LISTING: The NCDs offered through this Prospectus are proposed to be listed on the BSE Limited ("BSE") and BSE shall be the Designated Stock Exchange. Our Company has obtained "in-principle" approval for this Issue from BSE vide their letter dated October 11, 2019. BSE shall be the Designated Stock Exchange for this Issue.
DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of the BSE Limited.
DISCLAIMER CLAUSE OF RBI: The Company is having a valid certificate of registration dated December 19, 2013 bearing registration no. B-16.00117 issued by the Reserve Bank of India under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits/ discharge of liability by the company.
CREDIT RATING: The NCDs proposed to be issued under this Issue have been rated 'IND BBB' Outlook Stable, by India Ratings and Research Private Limited ("India Ratings") for an amount up to 35,000 lakhs vide its letter dated September 30, 2019. The rating of NCDs by India Ratings indicates that instruments with this rating are considered to have moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations. Such instruments carry moderate credit risk. This rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and investors should take their own decisions. The rating provided by rating agency may be suspended, withdrawn or revised at any time by the assigning rating agency on the basis of new information etc., and should be evaluated accordingly. Please refer to page 275 of the Prospectus for the rationale for the above rating.
AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: Application Forms can be obtained from: Kosamattam Finance Limited Tel: +91 481 258 6400; Fax: +91 481 258 6500; Lead Managers: KARVY INVESTOR SERVICES LIMITED, Tel: +91 40 23428774 / 23312454, Fax: +91 40 23374714; SMC CAPITALS LIMITED, Tel: +91 22 66481818, Fax: +91 22 67341697 and offices of Syndicate Members, Trading Members and Designated Branches of the SCSBs. Application Forms may be downloaded from the websites of the Company, BSE and the Lead Managers.
AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Physical copy of the Prospectus may be obtained from the Registered and Corporate Office of the Company and the Lead Managers. Full copy of the Prospectus will be available on the website of the Issuer at www.kosamattam.com, of the Lead Managers at www.karyvinvestmentbanking.com and www.smc.capitals.com of BSE at www.bseindia.com and of SEBI at www.sebi.gov.in.
PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK AND REFUND BANK: Axis Bank Limited

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE	DEBENTURE TRUSTEE*	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
KARVY INVESTMENT BANKING KARVY INVESTOR SERVICES LIMITED A-401/402, Lotus Corporate Park Off Western Express Highway, Jai Coach Junction, Goregaon (East), Mumbai - 400063 Maharashtra, India Tel: +91 22 66481818 Fax: +91 22 67341697 E-mail: kii.mcd2019@smccapitals.com Investor grievance e-mail: investor.grievance@smccapitals.com igmbd@karvy.com Website: www.karyvinvestmentbanking.com Contact Person: Swapnil Mahajan/ Bhavini Vakil Compliance Officer: M.P. Naidu SEBI Registration No: MB/INM0000003865 CIN: U67120TG1997PLC026253	smc capitals SMC CAPITALS LIMITED A-401/402, Lotus Corporate Park Off Western Express Highway, Jai Coach Junction, Goregaon (East), Mumbai - 400063 Maharashtra, India Tel: +91 22 66481818 Fax: +91 22 67341697 E-mail: kii.mcd2019@smccapitals.com Investor grievance e-mail: investor.grievance@smccapitals.com Website: www.smc.capitals.com Contact Person: Satish Mangutkar/ Bhavini Shah Compliance Officer: Vaishali Gupta SEBI Registration No: MB/INM000011427 CIN: U74899DL1994PLC063201	VISTRA ITCL VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED The IL&FS Financial Center, Plot No. C - 22, G Block, Bandra Kuria Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051 Maharashtra, India Tel: +91 22 2659 3333 Fax: +91 22 2653 3297 Email: itclcomplianceofficer@vistra.com Investor Grievance e-mail: investor.grievance@vistra.com Website: www.vistratitcl.com investorgrievance@vistra.com Contact Person: Jatin Chonani SEBI Registration Number: IND000000578 CIN: U66202MH1995PLC095507	KARVY FINTECH PRIVATE LIMITED Kary Selenium, Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Rangareddy Hyderabad - 500 032, Telangana Tel: +91 40 6716 2222 Fax: +91 40 2343 1551 Email: einward.ris@karvy.com Investor Grievance Email: kosamattam.ncdipo18@karvy.com Website: www.karyvifintech.com Contact Person: M Murali Krishna SEBI Registration Number: INR000000221 CIN: U72400TG2017PTC117649

*Vistra ITCL (India) Limited, by its letter dated September 19, 2019, has given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Issue and for its name to be included in this Prospectus and in all the subsequent periodical communications sent to the holders of the Debentures issued pursuant to this Issue. For further details, see "General Information - Debenture Trustee" on page 39 of the Prospectus.
 A copy of this Prospectus has been delivered to the RoC, in terms of Section 26 of the Companies Act, 2013 along with the requisite endorsed/certified copies of all requisite documents. For further details, see "Material Contracts and Documents for Inspection" beginning on page 270 of the Prospectus.

CORRIGENDUM: NOTICE TO INVESTORS ("NOTICE")

This notice is with reference to the Prospectus dated November 5, 2019 filed with RoC in relation to the Public Issue. In this regard, the Applicants/ Investors should note the following:
 1. The disclosure under the section title "Section VI - Issue Related Information - Issue Structure" on page 140 of the Prospectus, in the table with respect to the Terms of the NCD - the Coupon (%) per annum in Category I, II and III for the Cumulative Options I, IV, V, VI and VIII is disclosed "9.26, 10.52, 10.67, 10.71 and 10.41", respectively. It shall be replaced and read as "NA" for the Cumulative Options I, IV, V, VI and VIII.
 2. The disclosure under the section title "Section VI - Issue Related Information - Issue Structure" on page 140 of the Prospectus, in the table with respect to the Terms of the NCD - the Effective Yield (%) (per annum) - Category I, II and III for the Cumulative Option VIII is disclosed "10.4". It shall be replaced and read as "10.41".
 3. The disclosure under the section title "Section IX - Other Information - Material Contracts and Documents for Inspection" on page 270 of the Prospectus, under Material Documents point no. 11 the date of the Debenture Committee approving the Prospectus, is disclosed "November 04, 2019". It shall be replaced and read as "November 05, 2019".
 4. The disclosure relating to the Investor Grievance Email of the Registrar to the Issue on the Cover page of the Prospectus is mentioned as "kosamattam.ncdipo17@karvy.com". It shall be replaced and read as "kosamattam.ncdipo18@karvy.com".
 5. The disclosure under Section title "Section III - Introduction - General Information-Registrar to the Issue" on the page number 40 of the Prospectus, the Investor Grievance Email is disclosed as "kosamattam.ncdipo17@karvy.com". It shall be replaced and read as "kosamattam.ncdipo18@karvy.com".
 6. The disclosure under Section title "Section III - Introduction - General Information- Syndicate Members" on the page number 40 of the Prospectus, under Karvy Stock Broking Limited the telephone number is disclosed as "040 - 3312454". It shall be replaced and read as "040-23312454".
 The Prospectus shall be read in conjunction with this Corrigendum. The information in this Corrigendum supersedes the information in the Prospectus to the extent inconsistent with the information in the Prospectus. Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Prospectus.

Disclaimer: Kosamattam Finance Limited is subject to market conditions and other considerations, proposing a public issue of Secured Redeemable Non-Convertible Debentures and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Kerala and Lakshadweep, BSE Limited and SEBI (for record purposes). The Prospectus is available on our website at www.kosamattam.com, on the website of the stock exchange at www.bseindia.com and the website of the Lead Managers at www.karyvinvestmentbanking.com and www.smc.capitals.com. All investors proposing to participate in the public issue of NCDs by Kosamattam Finance Limited should invest only on the basis of information contained in the Prospectus. Please see section entitled "Risk Factors" beginning on page 16 of the Prospectus for risk in this regard.

For Kosamattam Finance Limited
 Sd/-
 Mathew K. Cherian
 Chairman and Managing Director
 (DIN : 1286073)
 Place: Kottayam
 Date: November 8, 2019